



# BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 18 नवम्बर, 2022

थाना गुलावठी

## एलटी बिजली लाइन से तार चोरी करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 05 कुंतल केबिल तार, 41 हजार 315 रुपये नकद व घटना में प्रयुक्त दो गाड़ी बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.11.2022 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर फुटा अट्टा हाइवे रोड पर 06 अभियुक्तों को चोरी किये गये 05 कुंतल केबिल तार, 41 हजार 315 रुपये नकद व एक बुलेरो पिकअप, एक सेन्ट्रो कार सहित गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- दौलत पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम गन्दूपाल थाना बच्छराईयु जनपद अमरोहा।
- 2- सुरेश पुत्र मुखराम निवासी उपरोक्त।
- 3- अमित पुत्र सिताराम निवासी ग्राम सराय थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
- 4- जावेद त्यागी पुत्र कमर आलम निवासी बहेड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5- फैसल पुत्र सब्बीर निवासी सिलमपुर दिल्ली।
- 6- सहजाद पुत्र सज्जाद निवासी जे ब्लॉक सिलमपुर दिल्ली।

### बरामदगी

- 1- 05 कुंतल केबिल तार
- 2- 41 हजार 315 रुपये नकद
- 3- 01 सैन्ट्रो कार नं- डीएल-10सीए-9346 (घटना में प्रयुक्त)
- 4- 01 बुलेरो पिकअप गाड़ी नं- डीएल-1एलएजी-8996 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी, सिकन्द्राबाद, स्याना क्षेत्रों में एलटी विद्युत लाइन से तार चोरी करने की घटना कारित की गई है जिनके संबंध में संबंधित थानों पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण शारित किस्म के चोर है जिनके द्वारा तार चोरी कर उसे दिल्ली में बेच दिया जाता है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

### गिरफ्तार अभियुक्त दौलत, सुरेश, अमित, जावेद, फैसल, सहजाद का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-398/22 धारा 136 विद्युत अधि0 व 411 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-429/22 धारा 136 विद्युत अधि0 व 411 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-938/22 धारा 136 विद्युत अधि0 व 411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं-377/22 धारा 136 विद्युत अधि0 व 411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री जितेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी
- 2- उ0नि0 श्री शिव संकर, उ0नि0 श्री इकराम अली
- 3- है0का0 अनिल कुमार, है0का0 माइकल बैसला, का0 कुशल तेवतिया, का0 अनु नैन, का0 मोहित मलिक, का0 कमल शर्मा, का0 हेरेन्द्र
- 4- सर्विलांस टीम जनपद बुलन्दशहर



मीडिया सेल बुलंदशहर